



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2010/पौष 18, 1931

No. 13]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2010/PAUSA 18, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2010

विषय : मै. कोडैक (चीन जन. गण.) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कं. लि. (चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक) के अनुरोध पर बुल्गारिया, चीन जन. गण., मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमिनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की (नियम 22 के अंतर्गत) न्यू शिपर समीक्षा शुरू करना ।

सं. 15/13/2009-डीजीएडी.—मै. कोडैक (चीन जन. गण.) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कं. लि. (चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. से प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमिनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के निर्यातों पर प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अनुरोध किया गया है, इस मामले में केन्द्र सरकार ने दिनांक 25-9-2007 की अधिसूचना सं. 108/2007-सीमा-शुल्क के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित किया है ।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 23-8-2007 की अधिसूचना के तहत बुल्गारिया, चीन जन. गण., मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमिनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) के आयातों के संबंध में अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे और 25-9-2007 की अधिसूचना सं. 108/2007-सीमा-शुल्क के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था ।

शामिल निर्यातक

3. वर्तमान जांच कोडैक (चीन जन. गण.) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स (चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक) जिन्होंने यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया है, के अनुरोध के अनुसार चीन जन. गण. से प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमिनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) के निर्यातों से संबंधित है ।

नए निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरुआत

4. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राधिकारी के लिए मूल जाँच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा उत्पाद का निर्यात न किए जाने की स्थिति में प्रश्नगत निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा करना अपेक्षित है जिसने चीन जन. गण. से प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमीनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के पहले मामले की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात न किया हो, बशर्ते आवेदक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने वाले निर्यातक देश में किन्हीं निर्यातकों अथवा उत्पादकों से संबंधित नहीं हो।

5. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत यथानिर्धारित शर्तों से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने के बाद मै. कोडैक (चीन जन. गण.) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कं. लि. (चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार दिनांक 23.8.2007 की अधिसूचना के तहत प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में तथा दिनांक 25.9.2007 की अधिसूचना सं. 108/2007-सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेते हैं।

6. न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लेने के बाद 23.8.2007 की अधिसूचना सं. 14/6/2006-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की चीन जन. गण. से प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमीनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) के आयात के बारे में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार मै. कोडैक (चीन जन. गण.) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कं. लि. (चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक) के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए एतद्वारा जांच प्रारंभ करते हैं।

7. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और दिनांक 25.9.2007 की अधिसूचना सं. 108/2007-सीमाशुल्क को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा के पूरा होने तक मै. कोडैक (चीन जन. गण.) ग्राफिक कम्यूनिकेशन्स कं. लि. (चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक) द्वारा किए गए प्री-सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव ऑफसेट अल्यूमीनियम प्लेट्स (पीएस प्लेट्स) के सभी निर्यातों पर अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करते हैं।

जांच अवधि

8. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2010 (6 माह) है।

सूचना प्रस्तुत करना

9. हितबद्ध पक्षकारों को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रारूप में और ढंग से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर सकें और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई

दिल्ली- 110011 को अपने विचारों से अवगत करा सकें । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और ढंग से उक्त प्राधिकारी को जांच से संबंधित अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

समय सीमा

10. इस समीक्षा से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि वह जाँच अवधि पूरी होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

12. सभी हितबद्ध पक्षकार उक्त नियमों के नियम 7(1) के अनुसार उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे ।

13. ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझते हैं ।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NEW SHIPPER REVIEW INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2010

Subject:- Initiation of New Shipper Review (under Rule 22) of Anti-Dumping duty imposed on imports of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) from Bulgaria, China PR, Malaysia, Singapore and South Korea requested by M/s. Kodak (China PR) Graphic Communications Company Ltd. (Producer / Exporter from China PR).

No.15/13/2009-DGAD:- M/s. Kodak (China PR) Graphic Communications Company Ltd., (Producer / Exporter from China PR) has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury)

Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting for a review of the anti-dumping duty recommended by the Designated Authority on exports of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) (hereinafter referred to as subject goods) from China PR in the earlier case of anti-dumping investigation where the Central Government has notified the anti-dumping duty vide Notification 108/2007 dated 25th September 2007.

2. The Authority had notified the Final findings concerning imports of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) from Bulgaria, China PR, Malaysia, Singapore and South Korea vide Notification dated 23rd August 2007 and anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 108/2007 dated 25th September 2007.

EXPORTER INVOLVED:

3. The present investigation relates to exports of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) from China PR requested by M/s. Kodak (China PR) Graphic Communications Company Ltd. (Producer / Exporter from China PR), who has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended.

INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW EXPORTER:

4. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made there under require the Authority to review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier case of anti-dumping investigation concerning imports of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) from China PR in case the applicant has not exported the product in the period of investigation of the original investigations, provided that the applicant is not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subject to anti-dumping duty.

5. The Authority having been prima facie satisfied with the conditions as prescribed under Rule 22 of Anti-Dumping Rules, decides to review the Anti-Dumping duty imposed by the Central Government in pursuance of the recommendations made by the Authority vide Notification dated 23rd August, 2007, and having regard to Notification No. 108/2007 dated 25th September 2007 as requested by M/s. Kodak (China PR) Graphic Communications Company Ltd. (Producer / Exporter from China PR).

6. Having decided to initiate New Shipper review the final findings notified vide Notification No.14/6/2006-DGAD dated 23rd August, 2007 need to be reviewed with regard to import of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) from PR China, the Authority hereby initiates investigations to determine individual dumping margin in respect of M/s. Kodak (China PR) Graphic Communications Company Ltd. (Producer / Exporter from China PR) in accordance with the Rules Supra.

7. The Authority recommends provisional assessment on all exports of Pre-sensitized Positive Offset aluminium Plates (PS Plates) made by M/s. Kodak (China PR) Graphic

Communications Company Ltd. (Producer / Exporter from China PR) of subject goods, till this review is completed, in accordance with the Rule 22 (2) of the Rules Supra and having regard to Notification No. 108/2007 Customs dated 25.9.2007.

PERIOD OF INVESTIGATION:

8. The period of investigation for the purpose of the present review is **1st October 2009-31st March 2010. (6 months).**

SUBMISSION OF INFORMATION:

9. The interested parties are being informed separately to enable them to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation to the above Authority in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT:

10. All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty days from the date of completion of period of investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available before the Authority in accordance with the Rules Supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE:

11. In terms of Rule 6(7) of Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

12. All interested parties shall provide a non confidential summary in terms of Rule 7(2), for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the rules Supra.

13. In case where as interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority